

अत्यन्त चिन्ताजनक होती जा रही है क्योंकि हथकरघा उद्योग अनेक प्रकार के संकटों के दौर से गुजर रहा है। सूत और केमिकल्स की कीमतें पहले से ही अधिक हो चुकी हैं तथा सरकार द्वारा इन चीजों की सरलता से कम कीमत पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है साथ ही बुनकरों द्वारा तैयार किये गये कपड़े की खरीद की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसी हालत में बुनकरों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः सरकार से मैं यह मांग करता हूँ कि सूत और केमिकल्स को सरलता से उपलब्ध कराने हेतु कारगर एवं ठोस कदम उठाये जाएं तथा गरीब बुनकरों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा पूरी तरह सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद लिया जाये। जब तक यह कदम नहीं उठाया जाता तब तक बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव नहीं है। जिन बुनकरों ने तीन हजार रुपये तक के कर्ज लिये हैं उनके कर्ज भी सरकार को माफ कर देना चाहिए।

(iv) Womens' rally in protest of dowry death and cruelties against women.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : देश में विशेषकर दिल्ली में दहेज न देने के कारण कुल-वधुओं को जोवित जलाने या मार देने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

इसके साथ ही साथ स्थान-स्थान पर पुलिस द्वारा महिलाओं के शीलभंग करने के भी समाचार आ रहे हैं।

यह स्थिति बड़ी विस्फोटक है।

दहेज-विरोधी कानून को कड़ा बनाने के लिए एक विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रेषित है। मेरा आग्रह है कि अधिक विलंब किए बिना समिति शीघ्र ही अपना कार्य सम्पन्न करे।

जो पुलिसकर्मी महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं, उनके कुकर्मां पर पर्दा डालने के बजाए उन्हें इस प्रकार की कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जो औरों के लिए उदाहरण बने।

आज दिल्ली की हजारों महिलाएं संसद के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए एकत्रित हुई हैं।

उनका साथ देने के लिए देश के लगभग ब्रह्मेक भाग से महिलाएं प्रतिनिधि शामिल हुई हैं। भारतीय नारी आज पीड़ित और प्रताड़ित है। उसका शील, सम्मान और जीवन खतरे में है। जिस देश में महिला समाज की ऐसी स्थिति हो, वह देश कदापि न तो उन्नति कर सकता है और न विश्व में सम्मानजनक स्थान

प्राप्त कर सकता है।

मेरा आग्रह है कि सरकार इस विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट करे और उपयुक्त कार्यवाही का आश्वासन दे, जिससे महिला वर्ग का समाधान हो सके।

(v) Need for taking immediate steps to check mosquito menace and alleged increase in incidence of Malaria in Delhi.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : पूरे दिल्ली में मलेरिया एवं मच्छरों का भयंकर प्रकोप हो रहा है। अस्पताल में कुल रोगियों में से आधे से अधिक रोगी मलेरिया ग्रस्त हैं। एन० डी० एम० सी० द्वारा जो पहले मलेरिया उन्मूलन हेतु नियमित रूप से दवाई छिड़काव या अन्य कार्यक्रम चलाए जाते थे अब बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया है। शहर में काफी गंदगी भी फैलती जा रही है। लोग मच्छरों से परेशान हैं। यदि जल्द मच्छरों के उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं चलाया गया तो अगले कुछ सप्ताहों में राजधानी में मलेरिया का भयंकर प्रकोप हो जाएगा।

अतः सरकार इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करे।

(vi) Soil erosion on the banks of the river Bhagirathi near Farakka set.

SHRI ZAINAL ABEDIN (Jangipur) : Six, the people of West Bengal and the Left Front Government in West Bengal are worried about the large scale erosion on the banks of the Bhagirathi near Farakka at the Mayansukh point which has reduced the land gap between the Ganga and the Bhagirathi from 5 Kms. to 1½ Kms. The river's shifting course was resulting in the loss of Indian territory and a consequent territorial gain for Bangladesh. The West Bengal Government had asked the Ganga Flood Control Board for grant of fund to check erosion in the 1980-81 financial year. But the Board has not released the said fund so far.

The land gap between the Ganga and the Bhagirathi was nearly 5 Km. till three years ago. If the Ganga Flood Control Board does not take immediate steps to check erosion, the very purpose of the Farakka Barrage would be lost. The erosion not only poses a danger to the towns on the banks which include Dhulian and Jalangi but also threatens the very existence of the Farakka Barrage itself, the national highways, the State highways and the Railway tracks passing between the two rivers.